

संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात् :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती/कु.	कार्यभार की तिथि	पदनाम
1	निरज बाला सिंघम/छतवाल	28.10.2014	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2	संजीव कुमार	17-10-2014	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के नाम तथा उनके आदेश पर,  
रविन्द्र कुमार, उपसचिव-VI (वित्त)

**No. F. 3 (14)/Fin(Rev-1)/2012-13/DS-VI/118.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officer, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:—

S.No.	Name of the Officer Sh./Smt./Ms.	Date of physical joining	Appointed as
1.	Smt. Neeraj Bala Singhal/ Chhatwal	28-10-2014	Assistant Value Added Tax Officer
2.	Sh. Sanjeev Kumar	17-10-2014	Assistant Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI (Finance)

कार्यालय सचिव (राजस्व) एवं मण्डलीय आयुक्त

(अधिसूचना शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 13 फरवरी, 2015

सं. फा. 22(1)/चक./85/6720-25.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथाविस्तारित पूर्व पंजाब जोत (चकबंदी एवं विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्व पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 14 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत कॉलम संख्या 6 में प्रत्येक गांव की सामने तालिका में उल्लिखित संख्याओं तथा तिथि के अनुसार जोत की चकबंदी के लिए निम्नलिखित गांवों को अधिसूचित किया गया था:

तालिका

1	2	3	4	5	6
क्रम संख्या	गांव का नाम	हद संख्या	एकड़ में क्षेत्र	उपमंडल	अधिसूचना की संख्या तथा दिनांक
1	खामपुर	34	863	अलीपुर	सं. फाईल.22(1) चकबंदी/85 05/09/1988.
2	जट खोड़	103	785	कझावला	सं. फाईल.22(1) चकबंदी/85 05/09/1988.
3	हिरनकी	09	794	अलीपुर	सं. फाईल.22(1) चकबंदी/85 05/09/1988.
4	कैर	127	1684	नजफगढ़	सं. फाईल.22(1) चकबंदी/85 05/09/1988.

77926/15-2

5	कादीपुर	18	1311	नरेला	सं. फाईल.22(1) चकबंदी/85 05/09/1988.
6	बककरवाला	160	1633	पंजाबी बाग	सं. फाईल.22(1) चकबंदी/85 05/09/1988
7	चटेशर	105	669	कझावला	सं. फाईल.22(1) चकबंदी/85 05/09/1988.
8	ओजन्दी	98	1354	कझावला	सं. फाईल.22(1) चकबंदी/85 05/09/1988.
9	दिवाउ कला	123	3311	नजफगढ़	सं. फाईल.22(1) चकबंदी/85 05/09/1988.
10	हिस्त कूदना जाफरपुर	159	852	पंजाबी बाग	सं. फाईल.22(1) चकबंदी/85 05/09/1988.
11	अकबरपुर माजरा	33	743	अलीपुर	सं. 1451/(एस व सी)/93./ सं.फाईल. 22(1) चकबंदी/85 10/09/1993.
12	मदाई पुर	35	793	महरोली	सं. 1451/(एस व सी)/93./ सं. फाईल.22(1)चकबंदी/85 10/09/1993.
13	दरेवली	97	919	नरेला	सं. 1451/(एस व सी)/93./ सं. फाईल. 22(1) चकबंदी/85 10/09/1993.
14	इब्राहिमपुर	27	732	अलीपुर	सं. 1451/(एस व सी )/93./ सं. फाईल. 22(1) चकबंदी / 85 10/09/1993.
15	इगोला	04	1525	अलीपुर	सं. 1451/(एस व सी )/93./ सं. फाईल. 22(1) चकबंदी /85 10/09/1993.
16	कालकपुर	01	565	अलीपुर	सं. 1451/(एस व सी )/93./ सं. फाईल. 22(1) चकबंदी /85 10/09/1993.
17	राधोपुर	153	535	कापसहेड़ा	सं. 1451/(एस व सी )/93./ सं. फाईल. 22(1) चकबंदी /85 10/09/1993.
18	सुलेमानपुर डबारा	94	1870	नरेला	सं. 1451/(एस व सी )/93./ सं. फाईल. 22(1) चकबंदी /85 10/09/1993.
19	भोरगढ़	64	969	नरेला	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
20	किशोड़ी सुलेमान नगर	89	1781	पंजाबी बाग	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
21	सुल प्रहलाद	49	545	कालकाजी	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
22	पंजाब खोड़	104	1743	कझावला	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
23	सतबडी	56	1331	साकेत	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं.फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
24	राजपुर कला	31	611	अलीपुर	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
25	सगेरपुर	59	465	नरेला	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
26	बाकनेर	65	1675	नरेला	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
27	बागरोला	181	1389	नरेला	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं.फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
28	बवाना	68	4194	नरेला	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
29	बंजितपुर ठाकरान	99	1447	नरेला	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
30	हुडडनपुर माजरा	112	769	कझावला	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.

31	छत्तरपुर	37	1845	साकेत	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
32	चौंदपुर	113	685	कंझावला	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
33	गढ़ी रिम्होला	107	324	कंझावला	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
34	घिंटोरनी	32	1057	वसंत विहार	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
35	छौंघा	67	642	नरेला	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
36	होलम्बी कला	61	1374	नरेला	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
37	झड़ौदा भाजरा बुराड़ी	22	630	सिविल लाइन्स	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
38	झड़ौदा कला	125	3074	नजफगढ़	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
39	कटेवडा	100	738	नरेला	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
40	लाम पुर	66	1263	नरेला	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
41	मौ. पुर रमजान पुर	08	627	अलीपुर	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
42	मुखमेल पुर	28	639	अलीपुर	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
43	मदनपुर डबास	115	761	रोहिणी	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
44	भांगल ठाकरान	95	1319	नरेला	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
45	पल्ला	02	933	अलीपुर	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
46	कमरुद्दीन नगर	86	588	पंजाबी बाग	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
47	कुतुबगढ़	102	1325	कंझावला	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
48	रसूलपुर	117	407	रोहिणी	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
49	रजोकरी	222	2136	वसंत विहार	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
50	रानी खेड़ा	116	784	रोहिणी	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
51	रोशनपुरा	-	682	नजफगढ़	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
52	समालखा	221	736	वसंत विहार	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
53	शाहपुर गढ़ी	41	373	नरेला	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.
54	सिंघू	36	697	अलीपुर	सं. राजस्व स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी /85 22/03/1996.

55	सुखपुर	126	421	नजफगढ़	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी/85 22/03/1996.
56	सुरेहाडा	172	1299	नजफगढ़	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी/85 22/03/1996.
57	साजपुर खुर्द	162	474	कापसहेड़ा	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी/85 22/03/1996.
58	तिनीपुर	06	610	अलीपुर	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी/85 22/03/1996.
59	टेकरी खुर्द	40	764	नरेला	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी/85 22/03/1996.
60	जाफरपुर कला	130	859	नजफगढ़	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/सं. फाईल 22(1)/ चकबंदी/85 22/03/1996.
61	तिलंगपुर कोटला	-	202	पंजाबी बाग	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी/85 22/03/1996.
62	सावदा	109	467	पंजाबी बाग	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी/85 22/03/1996.
63	आशा बाग	33	2038	मेहरोली	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी/85 22/03/1996.
64	बरसावरपुर	30	1764	अलीपुर	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी/85 22/03/1996.
65	जिन्दपुर	29	563	अलीपुर	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी/85 22/03/1996.
66	निलोटी	188	979	पंजाबी बाग	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/ सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी/85 22/03/1996.
67	रतौला	186	663	पंजाबी बाग	सं. राजस्व.स्थापना/1175-80/सं. फाईल. 22(1)/ चकबंदी/85 22/03/1996.
68	बरवाल	69	1458	नरेला	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.
69	तेहड़ी दौलतपुर	10	693	नरेला	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.
70	सिरसपुर	45	1178	नरेला	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.
71	लिबासपुर	46	566	नरेला	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.
72	रजापुर कला	63	611	नरेला	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.
73	फातेहपुर जट	07	306	नरेला	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.
74	गढ़ी खुसर	27	459	नरेला	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.
75	प्रहलादपुर बागर	70	1154	नरेला	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.
76	दीनदारपुर	164	972	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.
77	खडखडी नाहर	174	487	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.
78	खैरा	175	678	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.
79	भोरपुर डेयरी	145	408	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.
80	मलिकपुर जैर-ऐ नजफगढ़	143	964	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.
81	झुलझुली	140	719	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.
82	सासगपुर	136	673	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.
83	मुनेला खान	129	1298	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1995.

84	समसपुर	131	963	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
85	काजीपुर	133	374	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
86	घुमन हेड़ा	141	1890	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
87	गालिबपुर	137	--	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
88	असालतपुर खावद	148	--	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
89	दरियापुर खुर्द	142	417	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
90	दौराला	138	655	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
91	खड़खड़ी रोड	169	346	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
92	जैनपुर	149	453	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
93	कुतबपुर	169	357	नजफगढ़	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
94	रंगपुरी	223	1851	वसंत विहार	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
95	निजामपुर रशिदपुर	108	1585	सरस्वती विहार	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
96	मुबारकपुर डबास	90	581	सरस्वती विहार	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
97	सलाहपुर माजरा	136	883	सरस्वती विहार	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
98	निलवाल	124	842	पंजाबी बाग	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996..
99	मैदानगढ़ी	53	1890	होज खास	F. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
100	राजपुर खुर्द	54	183	होज खास	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
101	सुलतानपुर	36	706	होज खास	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
102	भाटी	59	3834	होज खास	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
103	असोला	58	2949	होज खास	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.
104	फतेहपुर बेरी	60	1158	होज खास	सं. 22(1)/ चकबंदी/96/667 15/11/1996.

और जबकि, इन गांवों की चकबंदी अभी तक शुरू नहीं हुई है तथा चकबंदी प्रक्रिया न किया जाना जनहित में समीचीन है;

अब इसलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 तथा यथाविस्तारित पूर्व पंजाब जोत (चकबंदी एवं विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्व पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं को रद्द करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. अनिल अग्रवाल, अपर सचिव (राजस्व)

**OFFICE OF THE SECRETARY (REVENUE) AND DIVISIONAL COMMISSIONER**

(NOTIFICATION BRANCH)

**NOTIFICATION**

Delhi, the 13th February, 2015

**No. F. 22(1)/Cons./85/6720-25.**—Whereas the following villages were notified for consolidation of holding, vide Notification numbers and dated mentioned in the Table against each village in column number 6 under sub-section (1) of section 14 of the East Punjab Holding (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (East Punjab Act No. 50 of 1948) as extended to the National Capital Territory of Delhi;

779 D G/15-3

TABLE

S.No.	Name of Village	Hadbast No.	Area in Acre	Sub-Division	No. and Date of Notification under sub-section (1) of 14 of the Act
1	2	3	4	5	6
1	Khampur	34	863	Ali Pur	No. F. 22(1) Consolidations/85 05/09/1988.
2	Jat khor	103	785	Kanjhawala	No. F. 22(1) Consolidations/85 05/09/1988.
3	Hiranki	09	794	Ali Pur	No. F. 22(1) Consolidations/85 05/09/1988.
4	Kair	127	1684	Najafgarh	No. F. 22(1) Consolidations/85 05/09/1988.
5	Qadi Pur	18	1311	Narela	No. F. 22(1) Consolidations/85 05/09/1988.
6	Bakkarwala	160	1633	Punjabi Bagh	No. F. 22(1) Consolidations/85 05/09/1988.
7	Chatesar	105	669	Kanjhawala	No. F. 22(1) Consolidations/85 05/09/1988.
8	Auchandi	98	1354	Kanjhawala	No. F. 22(1) Consolidations/85 05/09/1988.
9	Dichau Kalan	123	3311	Najafgarh	No. F. 22(1) Consolidations/85 05/09/1988.
10	Hiran Kudna Jaffarpur	159	852	Punjabi Bagh	No. F. 22(1) Consolidations/85 05/09/1988.
11	Akbarpur Majra	33	743	Ali Pur	No. 1451/(S&C)/93./ F. 22(1) Consolidation/85 10/09/1993.
12	Gadaipur	35	793	Mehrauli	No. 1451/(S&C)/93./No. F. 22(1) Consolidation/85 10/09/1993.
13	Harevali	97	919	Narela	No. 1451/(S&C)/93./No. F. 22(1) Consolidation/85 10/09/1993.
14	Ibrahimpur	27	732	Ali Pur	No. 1451/(S&C)/93./No. F. 22(1) Consolidation/85 10/09/1993.
15	Jhangola	04	1525	Ali Pur	No. 1451/(S&C)/93./No. F. 22(1) Consolidation/85 10/09/1993.
16	Qulakpur	01	565	Ali Pur	No. 1451/(S&C)/93./No. F. 22(1) Consolidation/85 10/09/1993.
17	Raghopur	153	535	Kapashera	No. 1451/(S&C)/93./No. F. 22(1) Consolidation/85 10/09/1993.
18	Sultanpur Dabas	94	1870	Narela	No. 1451/(S&C)/93./No. F. 22(1) Consolidation/85 10/09/1993.
19	Bhor Garh	64	969	Narela	No. Rev. Es t./1175-80/No. F 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996.
20	Kirari Suleman Nagar	89	1781	Punjabi Bagh	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996.
21	Pul Prehlad	49	545	Kalkaji	No. Rev. Es t./1175-80/ No. F. 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996.
22	Punjab Khor	104	1743	Kanjhawala	No. Rev. Es t./1175-80 /No. F. 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996.
23	Sutbari	56	1331	Saket	No. Rev. Es t./1175-80/ No. F. 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996.
24	Tajpur Kalan	31	611	Alipur	No. Rev. Es t./1175-80/ No. F. 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996.
25	Sungerpur	59	465	Narela	No. Rev. Es t./1175-80/ No. F. 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996.
26	Bankner	65	1675	Narela	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996.
27	Bapraula	181	1389	Narela	No. Rev. Es t./1175-80/ No. F. 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996.

28	Bawana	68	4194	Narela	No. Rev. Es t./1175-80/ No. F. 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996.
29	Bajitpur Thakran	99	1447	Narela	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996.
30	Budhanpur (Majra)	112	769	Kanjhawala	No. Rev. Es t./1175-80/ No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
31	Chhatarpur	37	1845	Saket	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996
32	Chand Pur	113	685	Kanjhawala	No. Rev. Es t./1175-80/ No. F. 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996.
33	Garhi Rindhola	107	324	Kanjhawala	No. Rev. Es t./1175-80/ No. F. 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996.
34	Ghitorni	32	1057	Vasant Vihar	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996.
35	Ghogha	67	642	Narela	No. Rev. Es t./1175-80/ No. F. 22(1)/ Consolidation/85 22/03/1996.
36	Holambi Kalan	61	1374	Narela	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
37	Jharoda Majra Burari	22	630	Civil Lines	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
38	Jharoda Kalan	125	3074	Najafgarh	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
39	Katewara	100	738	Narela	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
40	Lam Pur	66	1263	Narela	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
41	Mohd. Pur Ramzan Pur	08	627	Ali Pur	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
42	Mukhmel Pur	28	639	Ali Pur	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
43	Madan Pur Dabas	115	761	Rohini	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996
44	Nangal Thankran	95	1319	Narela	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
45	Palla	02	933	Ali Pur	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
46	Kamaruddin Nagar	86	588	Punjabi Bagh	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
47	Qutub Garh	102	1325	Kanjhawala	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
48	Rasool Pur	117	407	Rohini	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
49	Rajokari	222	2136	Vasant vihar	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
50	Rani Khera	116	784	Rohini	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996
51	Roshanpura	-	682	Najafgarh	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
52	Samalka	221	736	Vasant vihar	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
53	Shahpur Garhi	41	373	Narela	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.

779 DG/15-4

54	Singhu	36	697	Ali Pur	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
55	Surakh Pur	126	421	Najafgarh	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
56	Surehara	172	1299	Najafgarh	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
57	Tajpur Khurd	162	474	Kapashera	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
58	Tigi Pur	06	610	Ali Pur	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
59	Tikri Khurd	40	764	Narela	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
60	Jafarpur Kalan	130	859	Najafgarh	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
61	Tilangpur Kotla	-	202	Punjabi Bagh	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
62	Sawada	109	467	Punjabi Bagh	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
63	Aya Nagar	33	2038	Mehrauli	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
64	Bakhtawarpur	30	1764	Ali Pur	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
65	Jind Pur	29	563	Ali Pur	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
66	Nillothi	188	979	Punjabi Bagh	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
67	Ranhola	186	663	Punjabi Bagh	No. Rev. Es t./1175-80/No. F. 22(1)/Consolidation/85 22/03/1996.
68	Barwala	69	1458	Narela	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
69	Tehri Daulatpur	10	693	Narela	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
70	Siraspur	45	1178	Narela	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
71	Libas Pur	46	566	Narela	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
72	Rajapur Kalan	63	611	Narela	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
73	Fatehpur Jat	07	306	Narela	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
74	Garhi Khusro	27	459	Narela	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
75	Pehladpur Banger	70	1154	Narela	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
76	Dindarpur	164	972	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
77	Kharkhari Nahar	174	487	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
78	Khaira	175	678	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
79	Sherpur Dairy	145	408	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
80	Malikpur Zer-a Najafgarh	143	964	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
81	Jhuljhuli	140	719	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
82	Sarangpur	136	673	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
83	Munela Khan	129	1298	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
84	Samaspur	131	963	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
85	Kazipur	133	374	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
86	Ghuman Hera	141	1890	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
87	Galibpur	137	--	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.



88	Asalatpur Khawad	148	--	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
89	Daryapur Khurd	142	417	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
90	Deoraula	138	655	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
91	Kharkhari Rond	169	346	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
92	Jainpur	149	453	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
93	Qutabpur	169	357	Najafgarh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
94	Rangpuri	223	1851	Vasant Vihar	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
95	Nizampur Rashidpur	108	1585	Saraswati Vihar	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
96	Mubarakpur Dabas	90	581	Saraswati Vihar	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
97	Salahpur Majra	136	883	Saraswati Vihar	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
98	Neelwal	124	842	Punjabi Bagh	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
99	Maidan Garhi	53	1890	Hauz Khas	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
100	Rajpur Khurd	54	183	Hauz Khas	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
101	Sultanpur	36	706	Hauz Khas	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
102	Bhati	59	3834	Hauz Khas	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
103	Asoia	58	2949	Hauz Khas	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.
104	Fatehpur Beri	60	1158	Hauz Khas	F. 22(1)/Consolidation/96/667 15/11/1996.

And whereas, the consolidation in these villages has not been started and it is expedient in public interest not to take up the consolidation proceedings;

Now therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi in exercise of the powers conferred by section 21 of the General Clause Act, 1897 read with section 36 of the East Punjab Holding (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 as extended to the National Capital Territory of Delhi is pleased to revoke the notifications listed in column number 6 of the Table above.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
Dr. A.K. AGARWAL, Addl. Secy. (Revenue)

